

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2015—आषाढ़ 19, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ-ए-3-26-2013-एक (1)-1621.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर श्री कैलाश विजयवर्गीय का
मंत्री के पद से दिया गया त्याग-पत्र दिनांक 6 जुलाई 2015 से स्वीकृत किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ-ए-3-26-2013-एक (1)-1622.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग
की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2013-एक(1)-1621, दिनांक 10 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से
एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

Bhopal, the 10th July 2015

No. F.A.-3-26-2013-ONE (1)-1621.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister,
is pleased to accept the resignation tendered by Shri Kailash Vijayvargiya, Minister, with effect from 6th July 2015.

By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANTHONY DE SA, Chief Secy.